



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 15 फरवरी, 2023

माघ 26, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 96/23-2-23-71(सा0)-22

लखनऊ, 15 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प0आ0-57

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला सुलतानपुर में गोमती नदी स्थित कटसारी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है।

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित सीमाओं के भीतर जिला सुलतानपुर में कटसारी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला सुलतानपुर में कटसारी घाट स्थित पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, सुलतानपुर-अमेठी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर स्थित परगना का नाम	नदी के दोनों ओर स्थित ग्रामों के नाम	नदी, जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
सुलतानपुर	चाँदा, अलदेमऊ	बरूआ उत्तरी, कटसारी	गोमती नदी	कटसारी घाट

नौघाट की सीमा					
नौघाट की श्रेणी	किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10	11
“सी”	बायाँ-दायाँ	पैगुपुर घाट	1.00 किमी०	बरवारीपुर घाट	2.00 किमी०

आज्ञा से,
अजय चौहान,
प्रमुख सचिव-II।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 96/XXIII-2-23-71(SA.)-22, dated February 15, 2023 for general information :

No. 96/XXIII-2-23-71(SA.)-22

Dated Lucknow, February 15, 2023

WHEREAS, the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Gomti river at Katsari Ghat in district Sultanpur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Katsari Ghat in district Sultanpur within its limits as shown in the Schedule below;

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Katsari Ghat in district Sultanpur shall vest in the Superintending Engineer, Sultanpur-Amethi Circle, Lok Nirman Vibhag, Sultanpur.

SCHEDULE

Name of district	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both banks of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Sultanpur	Chanda, Aldemau	Barua Uttari, Katsari	Gomati River	Katsari Ghat

Limit of Ferry					
Class of Ferry	Bank edge	Upstream	Distance	Downstream	Distance
6	7	8	9	10	11
"C"	Left-Right	Paigupur Ghat	1.00 Km.	Barvaripur Ghat	2.00 Km.

By order,
AJAY CHAUHAN,
Pramukh Sachiv-II.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1230 राजपत्र-2023-(2022)-599+50+5=654 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।